

Report - Hindi debating society

हिंदी वाद विवाद समिति मिरांडा हाउस' ने अपने नए सत्र की शुरुआत 6 अगस्त, 2019 को आयोजित ऑडिशन से किया जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा, विभिन्न विषयों पर वाद विवाद कराकर नए सदस्यों को वाद विवाद परिवार में शामिल किया गया। 4 अक्टूबर, 2019 को 'नवागंतुक वाद विवाद प्रतियोगिता' का आयोजन हुआ जिसमें 'सदन मानता है कि सरकार की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है' विषय था जिस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से आई टीमों ने भाग लिया।

हमेशा की तरह समिति ने इस वर्ष भी अपने सक्रिय सदस्यों के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त की। निमिषा, द्वितीय स्थान (श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स), शिल्पा एवं निमिषा, प्रथम स्थान (नवागंतुक संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, रामजस कॉलेज), स्नेह सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार (हंसराज एवं पी जी डी ए वी कॉलेज), श्रेष्ठा एवं हेमा, प्रथम पुरस्कार (हिंदू कॉलेज), शगुन एवं हेमा सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार (हिंदू कॉलेज), मिली पी भारद्वाज, सर्वश्रेष्ठ वक्ता (संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, शिवाजी कॉलेज), ऐश्वर्या एवं प्रियंवदा द्वितीय स्थान (संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, रामजस कॉलेज), ऐश्वर्या एवं प्रियंवदा प्रथम स्थान (लेडी श्री राम कॉलेज, संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता), अनुष्का एवं अमृता द्वितीय स्थान (सत्यवती कॉलेज), अमृता प्रथम पुरस्कार (राजीव गांधी टैलेंट शो),

संजू एवं शिल्पा द्वितीय स्थान (शहीद भगत सिंह कॉलेज)

शिवांगी एवं अदिति प्रोत्साहन पुरस्कार (हिंदू कॉलेज), गीतिका एवं सृष्टि प्रथम स्थान (दयाल सिंह कॉलेज)

, शिल्पा एवं शगुन द्वितीय स्थान (जानकी देवी कॉलेज), संजू सर्वश्रेष्ठ वक्ता (मिरांडा हाउस), दिव्या तृतीय स्थान (जाकिर हुसैन कॉलेज) आदि सदस्यों ने भी विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेजों में सकारात्मक प्रतिभागिता की।

हिंदी वाद विवाद समिति इस वर्ष अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं इतने कम समय में इस समिति के सदस्यों द्वारा अन्य महाविद्यालयों में जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर तथा अपने तर्कों को मंच पर जाकर प्रस्तुत कर इस समिति और मिरांडा हाउस का नाम रौशन किया है जोकि अत्यंत सराहनीय है।